



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, सितम्बर 12—सितम्बर 18, 2004, शनिवार/भाद्र 21—भाद्र 27, 1926
No. 22] NEW DELHI, SEPTEMBER 12—SEPTEMBER 18, 2004, SATURDAY/BHADRA 21—BHADRA 27, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएँ
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2004

आ. अ. 54.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि श्री अनीश जैन, मुकाम-पोस्ट-हट्टा, तह. बालाघाट, मध्य प्रदेश के एक अभ्यर्थी जिन्होंने नवम्बर, 2003 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए 89-किरनापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है और आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग इसके द्वारा यह घोषणा करता है कि उक्त श्री अनीश जैन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि से निरहित घोषित करता है।

[सं. 76/म.प्र./2004]

आदेश से,

आनन्द कुमार, निदेशक (प्रशा.) सह प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**ORDER**

New Delhi, the 8th September, 2004

O.N. 54.—Whereas, the Election Commission of India is satisfied that Shri Aneesh Jain, Village and Post-Hatta, Tehsil-Balaghat, Madhya Pradesh, a contesting candidate at the General Election to Madhya Pradesh Legislative Assembly from 89-Kirnapur Assembly Constituency held in November, 2003 has failed to lodge any account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares Shri Aneesh Jain to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/MP/2004]

By Order,

ANAND KUMAR, Director (Admn.)-cum-Principal Secy.

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2004

आ. अ. 55.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग जम्मू और कश्मीर सरकार के परामर्श से एतद्वारा श्री बी.एल. निमेश, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री कृष्ण बल्लभ अग्रवाल, आई.ए.एस. (जे.के. : 85) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए जम्मू और कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री कृष्ण बल्लभ अग्रवाल जम्मू और कश्मीर सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री कृष्ण बल्लभ अग्रवाल मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू और कश्मीर के पद पर कार्य करते हुए जम्मू और कश्मीर सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

[सं. 154/जे. एण्ड के./2004-का. प्रशासन]

आदेश से,

नरेन्द्र ना. बुटोलिया, अव. सचिव

New Delhi, the 8th September, 2004

O.N. 55.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with Government of Jammu & Kashmir hereby nominates Shri Krishan Ballabh Agarwal, IAS (JK : 85), as the Chief Electoral Officer for the State of Jammu & Kashmir with effect from the date he takes over charge and until further orders *vice* Shri B.L. Nimesh, IAS.

2. Shri Krishan Ballabh Agarwal shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Jammu & Kashmir which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Krishan Ballabh Agarwal while functioning as the Chief Electoral Officer, Jammu & Kashmir shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Jammu & Kashmir except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/J&K/2004-P. Admn.]

By Order,

NARENDRA N. BUTOLIA, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2004

आ. अ. 56.—निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2003 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा समय के अंतर्गत दाखिल करने में असफल रहा है ;

और उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए या तो कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि से निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम संख्या	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	40-रायपुर नगर	श्री जुगनू आलम, गाजी नगर मस्जिद के पास बीरगांव, छत्तीसगढ़	कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा।
2.	—वही—	41-रायपुर ग्रामीण	डा. टी.के. राव, रावण पुतला के सामने मेन रोड, राजेन्द्र नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—
3.	—वही—	—वही—	लला राम वल्द खोरबहरा, ग्राम-टुण्डा, पो. सेजबहार, तहसील व जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—
4.	—वही—	—वही—	हरीश कुमार मटलानी, फरिश्ता अस्पताल के पास क्टोरातालाब, रायपुर छत्तीसगढ़	—वही—
5.	—वही—	42-अभनपुर	श्री शेखूराम बंजारे, ग्राम व पो. कुरूं, तहसील अभनपुर जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—
6.	—वही—	45-धरसीवा	श्री शिराज अनवर (बाबी सर), सेक्टर-1, शिवानंद नगर, खमतलाई, डब्ल्यू. आर. एस. कालोनी, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—
7.	—वही—	—वही—	श्री निषादराज उमाशंकर विनायक, ग्राम व पोस्ट फुडहर, (देवपुरी) तह. व जिला-रायपुर छत्तीसगढ़	—वही—

1	2	3	4	5
8.	छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2003	46-भाटापारा	श्री देबिन बाई नेताम, म. क्र. 33, ग्राम लावर, तह. सिमगा, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़	कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा।
9.	—वही—	—वही—	श्री भगत राम, ग्राम-चकरवाय, पो. दामाखेड़ा तह. सिमगा, जिला-रायपुर छत्तीसगढ़	—वही—
10.	—वही—	—वही—	श्री विदेशी टंडन, ग्राम-सेन्दरी, पो. भाटापारा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—
11.	—वही—	49-कसडोल	श्री दिनेश मिश्रा, ग्राम-गोरधा, पो.-मोहतरा कसडोल, तह. कसडोल जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—
12.	—वही—	—वही—	श्री अनिल तिवारी, बजरंग चौक, कसडोल, तह.-कसडोल, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—
13.	—वही—	—वही—	श्री गौरीशंकर साहू, ग्राम व पोस्ट पुरगांव, व्हाया बिलाईगढ़, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—
14.	—वही—	—वही—	श्री नरेश कुमार, ग्राम व पोस्ट नरदहा, तहसील व जिला रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—
15.	—वही—	—वही—	श्री नारायण साहू, बजरंग चौक, साहू मोहल्ला, टिकरापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—
16.	—वही—	—वही—	श्री सूर्यप्रकाश, ग्राम व पोस्ट-पिसीद, तहसील-कसडोल, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—
17.	—वही—	51-राजिम	श्री शंभूराम कुंजाम (पेन्टर), ग्रा. व पो. अतरमरा, थाना-राजिम, तह.-गरियाबंद, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़	—वही—

[सं. 76/छ.ग.-वि.स./2003]

आदेश से,

आनन्द कुमार, निदेशक (प्रशा.)-सह-प्रधान सचिव

ORDER

New Delhi, the 8th September, 2004

O.N. 56.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidate specified in column (4) of the table below at the General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003 as specified in column (2) held from the constituency specified in column (3) against his name has failed to lodge account of his election expenses within the specified time and/or in the manner required by the Representations of the People Act, 1951 and the rule made thereunder as shown in column (5) of the said table ;

And whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

TABLE

S.No.	Particular of election	S.No. & Name of Assembly Constituency	Name & Address of contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003	40-Raipur City	Juganu Alam, Ganji Nagar, Near Masjid, Veergaon, Raipur, Chhattisgarh	Failure to lodge any account of election expenses
2.	—do—	41-Raipur Rural	Dr. T.K. Rao Opp. Ravan Putla, Main Road, Rajendra Nagar, Raipur, Chhattisgarh.	—do—
3.	—do—	—do—	Lala Ram Vald Khorbahra, Vill. Tunda, Post-Sejbahar, Tahsil and District-Raipur, Chhattisgarh	—do—
4.	—do—	—do—	Haresh Kumar Matlani, Near Farishta Hospital, Katora Talab, Raipur, Chhattisgarh	—do—
5.	—do—	42-Abhanpur	Shekhu Ram Banjare, Vill. & P.O.-Kurru, Tah.-Abhanpur, District-Raipur, Chhattisgarh	—do—
6.	—do—	45-Dharsiwa	Shiraj Anwar (Boby Sir), Sec.-1, Shivanand Nagar, Khamtarai, WRS Colony, District-Raipur, Chhattisgarh	—do—
7.	—do—	—do—	Nishadraj Uma Shankar Vinayak, Vill.-Fundhar (Deopuri), Teh. & District-Raipur, Chhattisgarh	—do—
8.	—do—	46-Bhatapara	Debin Bai Netam, H.No. 33, Vill.-Lawar, Tehsil-Simga, District-Raipur, Chhattisgarh	—do—

2718 GIDy-2

1	2	3	4	5
9.	General Election to Chhattisgarh Legislative Assembly, 2003	46-Bhatapara	Bhagat Ram, Vill.-Chakarway, P.O.-Damakhera, Teshil-Simga, District-Raipur, Chhattisgarh	Failure to lodge and account of election expenses
10.	—do—	—do—	Videshi Tandon, Vill.-Sendri, P.O.-Bhatapara, District-Raipur, Chhattisgarh	—do—
11.	—do—	49-Kasdol	Dinesh Mishra, Village-Gordha, Post-Mohtara (Kasdol), Tehsil-Kasdol, District-Raipur, Chhattisgarh	—do—
12.	—do—	—do—	Anil Tiwari, Bajrang Chowk Kasdol, Tehsil-Kasdol, District-Raipur, Chhattisgarh	—do—
13.	—do—	—do—	Gourishankar Sahu, Village & Post-Purgaon, Via.-Bilaigarh, District-Raipur, Chhattisgarh	—do—
14.	—do—	—do—	Naresh Kumar, Village & Post-Nardaha, Tehsil and District-Raipur, Chhattisgarh	—do—
15.	—do—	—do—	Narayan Sahu, Bajrang Chowk, Sahu Mohalla, Tikrapara, Raipur, Chhattisgarh	—do—
16.	—do—	—do—	Suryaprakash, Village & Post-Pisid, Tehsil-Kasdol, District-Raipur, Chhattisgarh	—do—
17.	—do—	51-Rajim	Shambhu Ram Kunjam (Painter), Village & Post Atarmara, Thana-Rajim, Tehsil-Gariyaband, District-Raipur, Chhattisgarh	—do—

[No. 76/CG-LA/2003]

By Order,

ANAND KUMAR, Director (Admn.)-cum-Principal Secy.